

### स्वतंत्रता दिवस समारोह -2022

“इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना  
रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना  
लह देकर की है जिसकी सुरक्षा हमने  
ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना”

हमारे देश भारत की आज़ादी की 76 वीं वर्षगाँठ के शुभ अवसर को संपूर्ण भारतवर्ष के साथ -साथ हमारे विद्यालय बाल भारती पब्लिक स्कूल, नोएडा के विद्यार्थी, शिक्षकगण एवं अन्य सहयोगियों ने भी बड़े उत्साह पूर्वक ढंग से मनाया। उन्होंने भारत के प्रति अपना स्नेह, सम्मान व कृतज्ञता विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति के माध्यम से प्रकट की।

विद्यालय में गत सप्ताह आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 'हर घर तिरंगा' अभियान के सार्थक रूप में मनाया गया जिसके अंतर्गत विद्यालय में विभिन्न गतिविधियाँ जैसे झंडे के साथ सेल्फी, हमारे नेताओं का स्मरण, 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा' गीत गायन, "हर घर तिरंगा" विषय पर स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, राष्ट्रीय नेताओं के रूप में तैयार होकर राष्ट्रीय ध्वज के साथ "प्रभात - फेरी" आदि करवाई गई ताकि छात्र देश की आज़ादी के महत्व को समझें। छात्रों के साथ -साथ सभी अध्यापिकाओं के लिए भी 'हर घर तिरंगा' क्विज एवं अभिभावकों के लिए बुक -मार्क प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सभी अभिभावकों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विद्यालय की विद्यार्थी परिषद की प्रमुख सिमरन शर्मा का देशभक्ति संदेश मनोहर चित्रों के साथ अभिभावकों एवं विद्यार्थियों एवं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के कार्यक्रम का प्रारंभ सर्वप्रथम विद्यालय के प्रांगण में उप प्रधानाचार्या श्रीमती अनुपमा मोटवानी जी के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण करके हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के बैंड की मधुर ध्वनि में राष्ट्रगान का स्वर सम्पूर्ण विद्यालय में गूँज उठा।

सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। 'आज़ादी और हम' विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। अंत में प्राथमिक एवं माध्यमिक वर्ग के विद्यार्थियों ने सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका को मनोहर नृत्य-नाटिका के द्वारा प्रस्तुत किया जिसने वहाँ उपस्थित सभी जनों के भीतर देशभक्ति की भावना की लहर ही दौड़ा दी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया तथा जय हिन्द के घोष से

सम्पूर्ण विद्यालय गूँज उठा। जय हिन्द !



## स्वतंत्रता दिवस समारोह की मनोहर झलकियाँ